



suraj



khushi

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121630401


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
21/04/1997 :	जन्म तिथि	: 11/10/2001
सोमवार :	दिन	: गुरुवार
घंटे 21:45:00 :	जन्म समय	: 12:21:00 घंटे
घटी 39:51:09 :	जन्म समय(घटी)	: 14:55:06 घटी
India :	देश	: India
Bilaspur :	स्थान	: Bilaspur
31:18:00 उत्तर :	अक्षांश	: 31:18:00 उत्तर
76:48:00 पूर्व :	रेखांश	: 76:48:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:22:48 :	स्थानिक संस्कार	: -00:22:48 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
05:48:32 :	सूर्योदय	: 06:22:57
18:55:04 :	सूर्यास्त	: 17:55:47
23:49:08 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:52:37
वृश्चिक :	लग्न	: धनु
मंगल :	लग्न लग्नाधिपति	: गुरु
कन्या :	राशि	: कर्क
बुध :	राशि-स्वामी	: चन्द्र
चित्रा :	नक्षत्र	: पुष्य
मंगल :	नक्षत्र स्वामी	: शनि
1 :	चरण	: 2
हर्षण :	योग	: सिद्ध
वणिज :	करण	: गर
पे-पेशवा :	जन्म नामाक्षर	: हे-हेमा
वृष :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: तुला
वैश्य :	वर्ण	: विप्र
मानव :	वश्य	: जलचर
व्याघ्र :	योनि	: मेष
राक्षस :	गण	: देव
मध्य :	नाड़ी	: मध्य
मूषक :	वर्ग	: मेष

ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
मंगल 6वर्ष 6मा 7दि	14:17:29	वृश्चि	लग्न	धनु	10:00:47	शनि 11वर्ष 8मा 22दि
गुरु	07:46:29	मेष	सूर्य	कन्या	24:08:47	बुध
29/10/2021	24:14:45	कन्या	चंद्र	कर्क	08:26:13	03/07/2013
29/10/2037	23:09:21	सिंह व	मंगल	धनु	25:10:49	04/07/2030
गुरु 17/12/2023	13:48:11	मेष व	बुध व	तुला	00:12:25	बुध 30/11/2015
शनि 29/06/2026	24:29:27	मक	गुरु	मिथु	21:00:15	केतु 26/11/2016
बुध 04/10/2028	12:41:59	मेष	शुक्र	कन्या	00:55:12	शुक्र 27/09/2019
केतु 10/09/2029	19:07:38	मीन	शनि व	वृष	20:54:26	सूर्य 03/08/2020
शुक्र 11/05/2032	04:41:42	कन्या व	राहु व	मिथु	06:14:26	चन्द्र 02/01/2022
सूर्य 27/02/2033	04:41:42	मीन व	केतु व	धनु	06:14:26	मंगल 30/12/2022
चन्द्र 29/06/2034	14:39:47	मक	हर्ष व	मक	27:11:32	राहु 19/07/2025
मंगल 05/06/2035	06:06:35	मक	नेप व	मक	12:07:42	गुरु 25/10/2027
राहु 29/10/2037	11:16:13	वृश्चि व	प्लूटो	वृश्चि	19:17:48	शनि 04/07/2030

व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट


23:49:08 चित्रपक्षीय अयनांश 23:52:37



अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	वैश्य	विप्र	1	0.00	--	जातीय कर्म
वश्य	मानव	जलचर	2	1.00	--	स्वभाव
तारा	वध	क्षेम	3	1.50	--	भाग्य
योनि	व्याघ्र	मेष	4	1.00	--	यौन विचार
मैत्री	बुध	चन्द्र	5	1.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	राक्षस	देव	6	1.00	--	सामाजिकता
भकूट	कन्या	कर्क	7	7.00	--	जीवन शैली
नाडी	मध्य	मध्य	8	0.00	हाँ	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	12.50		

कुल : 12.5 / 36



अष्टकूट मिलान

नाड़ी दोष कष्टदायक है क्योंकि दोनों के नक्षत्र एवं राशियां भिन्न-2 है।

नाड़ी दोष कष्टदायक नहीं है क्योंकि khushi का नक्षत्र पुष्य है।

suraj का वर्ग मूषक है तथा khushi का वर्ग मेष है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार suraj और khushi का मिलान ठीक नहीं है।

मंगलीक दोष मिलान

suraj मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में दशम भाव में स्थित है।

khushi मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में प्रथम भाव में स्थित है।

त्रिषट् एकादशे राहु त्रिषट् एकादशे शनिः।

त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत्।।

वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुंडली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि राहु suraj की कुण्डली में एकादश भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

suraj तथा khushi में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

मिलान ठीक नहीं है क्योंकि अष्टकूट गुण नहीं मिलते हैं।

अष्टकूट फलादेश

वर्ण

suraj का वर्ण वैश्य है तथा khushi का वर्ण ब्राह्मण है। क्योंकि khushi का वर्ण suraj के वर्ण से ऊँचा है जिसके कारण यह अच्छा मिलान नहीं है। khushi अति अहंकारी, शाहखर्च एवं दिखावा करने वाली होगी। khushi को हमेशा यह महसूस होता रहेगा कि उसका पति निम्न दर्जे का है तथा बहुत कम कमाता है। इस कारण से उसमें निराशा की भावना घर कर कर सकती है।

वश्य

suraj का वश्य द्विपद अर्थात् मनुष्य है एवं khushi का वश्य जलचर है अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। मनुष्य एवं जलचर दोनों प्रकृति के अंग हैं यद्यपि कि दोनों के स्वभाव, गुण, पसंद/नापसंद बिल्कुल अलग होते हैं तथा प्रकृति ने दोनों के अलग-अलग कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये हैं। इसलिये suraj एवं khushi दोनों सामान्यतः एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा एक-दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं होंगे। सामान्यतः suraj khushi पर नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ होगा। हालांकि यह अनुकूल मिलान नहीं है क्योंकि suraj हमेशा khushi के ऊपर हावी रहेगा।

तारा

suraj की तारा वध तथा khushi की तारा क्षेम है। suraj की तारा वध होने के कारण यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। suraj बुरी आदतों, अधोपतन, चरित्रहीनता एवं भोग-विलास की आदतों का शिकार हो सकता है। suraj को शराब एवं ड्रग की लत लग सकती है किंतु khushi लगातार उसकी भलाई के उद्देश्य से उसे सुधारने का प्रयास करती रहेगी। इस प्रकार उसके अच्छे प्रयासों का परिणाम सार्थक हो सकता है।

योनि

suraj की योनि व्याघ्र है तथा khushi की योनि मेष है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं है। इन दोनों योनि के बीच सामान्य वैर है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान न होकर बुरा मिलान ही रहेगा। जिसके कारण दोनों की रुचि एवं पसंद नापसंद अलग-अलग ही होंगी। इनके वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में अक्सर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कभी-कभी लड़ाई झगड़ा घरेलू हिंसा का रूप भी ले सकता है। लड़ाई झगड़े के कारण पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण एवं कलेशपूर्वक ही रहेगा। दोनों कभी कभी एक दूसरे पर हिंसक आक्रमण भी कर सकते हैं। दोनों के बीच झगड़े का कारण बुद्धिमत्ता एवं परस्पर समझदारी की कमी ही हो सकती है। यदि समझदारी और समझबूझ से काम न लिया गया तो कुछ समय अंतराल पर यह स्थिति मुकदमेबाजी तक भी पहुंच सकती है। इस प्रकार परस्पर प्रेम एवं सौहार्द्र की भावना का अभाव ही रहेगा। साथ ही दोनों के बीच अविश्वास की भावना भी रह सकती है। कभी-कभी धनहानि होने की भी संभावना होगी। अतः यदि दोनों परस्पर समझदारी एवं बुद्धि से काम लें तो स्थिति

को सुधारा भी जा सकता है। परस्पर लड़ाई झगड़े और वैचारिक मतभेद रहने के कारण परिवार में सुख समृद्धि का अभाव ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण व कलेशपूर्वक बीतने की संभावना है अतः सतर्कता बरतें।

मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में suraj से khushi का राशि स्वामी शत्रु है। परन्तु khushi से suraj का राशि स्वामी मित्र है अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से औसत मिलान है। इनके कुंडली मिलान में suraj का राशि स्वामी khushi के राशि स्वामी को शत्रु समझता है इसलिये ऐसी स्थिति में suraj उग्र, अविश्वासी एवं धोखेबाज हो सकता है जिसके कारण वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवायेगा तथा परिवार में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहेगी। जबकि इसके विपरीत कन्या, suraj को खूब प्यार करने वाली तथा ख्याल रखने वाली होंगी।

गण

suraj का गण राक्षस तथा khushi का गण देव है। अर्थात् khushi का गण suraj के गण से श्रेष्ठ है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। जिसके कारण suraj निर्दयी, कठोर, निष्ठुर एवं झगड़ालू हो सकते हैं। साथ ही suraj का khushi के साथ क्रूर व्यवहार करने की संभावना बनी रह सकती है। पति-पत्नी, अक्सर कुत्ते-बिल्लियों की भांति झगड़ा कर सकते हैं एवं परिवार में अक्सर अशांति का माहौल बना रहेगा। khushi हमेशा हर कदम पर समझौता करने की कोशिश करती रहेगी ताकि दोनों का संबंध बना रहे।

भकूट

suraj से khushi की राशि एकादश भाव में स्थित है तथा khushi से suraj की राशि तृतीय भाव में स्थित है जिसके कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण suraj परिश्रमी, प्रिय, खुश तथा अपना हर कार्य को उत्साह से संपादित करने वाले होंगे। वह अपने परिवार, पड़ोसियों तथा पूरे समाज की आंखों का तारा होंगे। उनके अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध अति मधुर होंगे। दूसरी ओर khushi हर गुण से परिपूर्ण होगी तथा पति के लिए सदैव सहायक होंगी। वह स्वयं भी व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त रहकर धन कमायेंगी। तथा घर के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। साथ ही भविष्य के लिए बचत भी करती रहेंगी।

नाड़ी

suraj की नाड़ी मध्य है तथा khushi की नाड़ी भी मध्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान हैं, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोषपूर्ण है। अर्थात् यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। यदि पति-पत्नी की समान नाड़ी मध्य ही होगी तो पति अथवा पत्नी में से किसी की मृत्यु की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में suraj एवं khushi का विवाह अति घातक हो सकता है। आपकी संतान कमजोर, डरपोक, मानसिक रूप से असंतुलित, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो सकती हैं। अतः ऐसा विवाह पूर्णतः त्याज्य है।

मेलापक फलित

स्वभाव

suraj की जन्म राशि पृथ्वीतत्व युक्त कन्या तथा khushi की राशि जलतत्व युक्त कर्क राशि है। नैसर्गिक रूप से पृथ्वी एवं जलतत्व में समानताएं होने के कारण suraj और khushi के मध्य स्वाभाविक समानता रहेगी जिससे परस्पर दाम्पत्य संबंधों में मधुरता का भाव रहेगा। अतः मिलान अनुकूल रहेगा।

suraj की राशि का स्वामी बुध तथा khushi की राशि का स्वामी चन्द्रमा परस्पर मित्र एवं शत्रु राशियों में स्थित है। अतः इसके प्रभाव से यदा कदा परस्पर संबंधों में तनाव का भाव उत्पन्न होगा। साथ ही khushi suraj के गुणों की अपेक्षा कमियों पर विशेष ध्यान देगी जिससे suraj को khushi से अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फलतः एक दूसरे के प्रति सहयोग मित्रता एवं सहयोग के भाव में न्यूनता रहेगी तथा वैवाहिक जीवन का सुख मध्यम रहेगा।

suraj एवं khushi की राशियां परस्पर एकादश एवं तृतीय भाव में पड़ती है। यह शुभ भकूट माना जाता है। इसके प्रभाव से उपरोक्त दुष्प्रभावों में कमी होगी तथा परस्पर सामंजस्य स्थापित करके सहयोग एवं सहानुभूति का भाव रखेंगे। साथ ही गुणों पर विशेष ध्यान देकर एक दूसरे की कमियों की उपेक्षा करेंगे। इससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तथा मानसिक शांति भी बनी रहेगी।

suraj का वश्य मानव तथा khushi का वश्य जलचर है। नैसर्गिक रूप से मानव एवं जलचर में असमानता का भाव रहता है। अतः suraj और khushi के मध्य शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर आवश्यकताएं भिन्न रहेंगी तथा काम संबंधों में भी एक दूसरे को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहेंगे। अतः धैर्य एवं सावधानी से ही शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं।

suraj का वर्ण वैश्य एवं khushi का वर्ण ब्राह्मण है। अतः suraj धनार्जन में प्रवृत्त होंगे तथा व्यापारिक बुद्धि से कार्यों को सम्पन्न करेंगे। लेकिन khushi शैक्षणिक धार्मिक तथा सत्कार्यों को करने में सर्वदा तत्पर रहेंगी।

धन

suraj और khushi की तारा एक दूसरे के लिए सम रहेगी। अतः इसका आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सामान्य रूप से धन तथा लाभ प्राप्त करने में दम्पति सफल होंगे। suraj एवं khushi की राशि परस्पर तृतीय एवं एकादश भाव में पड़ती है। यह शुभ भकूट माना जाता है। इसके प्रभाव से suraj और khushi की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता तथा सम्पन्नता में वृद्धि होगी तथा मंगल का प्रभाव भी शुभ ही रहेगा। अतः आय स्रोतों में वृद्धि होगी।

suraj को लाटरी या सट्टे आदि के द्वारा अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है या

किसी अन्य स्रोत से एक साथ प्रचुर मात्रा में लाभ के योग बनेंगे। इस प्रकार suraj और khushi धनऐश्वर्य से युक्त होकर अपना समय व्यतीत करने में समर्थ होंगे।

स्वास्थ्य

suraj और khushi दोनों मध्य नाड़ी में उत्पन्न हुए हैं अतः नाड़ी दोष से ये प्रभावित होंगे। इसके प्रभाव से इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तथा समय समय पर शारीरिक दुर्बलता का आभास होगा। साथ ही suraj के लिए मंगल भी अशुभ रहेगा जिससे वे रक्त या पित्त संबंधी कष्ट प्राप्त करेंगे तथा हृदय संबंधी परेशानी भी होगी इसके अतिरिक्त धातु या गुप्त रोगों की संभावना भी हो सकती है। इससे परस्पर संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा अतः मिलान के लिए यत्नपूर्वक इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तथापि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए suraj को नियमित रूप से हनुमानजी की पूजा तथा मंगलवार का उपवास करना श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है।

संतान

संतति की दृष्टि से suraj और khushi का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से suraj और khushi को उचित समय पर संतति प्राप्ति होगी तथा इसमें किसी भी प्रकार से विलम्ब या व्यवधान नहीं होगा। साथ ही बच्चों के मध्य अंतर भी अनुकूल रहेगा जिससे उचित मात्रा में उनका पालन पोषण करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त suraj और khushi के पुत्र एवं कन्याओं की संख्या बराबर रहेगी।

khushi का प्रसव सामान्य रूप से होगा तथा इसमें उन्हें किसी भी प्रकार से परेशानी या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही किसी प्रसूति संबंधी चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः khushi के मन में इसके प्रति जो अनावश्यक भय या चिन्ताएं रहती हैं उसको दूर कर देना चाहिए तथा नियमित रूप से गर्भावस्था में डाक्टरी परीक्षण करवाने चाहिए। इस प्रकार khushi सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी तथा स्वयं भी शांति तथा स्वस्थता की अनुभूति करेंगी।

बच्चों के द्वारा suraj और khushi को पूर्ण सन्तुष्टि मिलेगी तथा अपनी योग्यता बुद्धिमता एवं व्यवहार कुशलता से वे अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे यद्यपि माता पिता के वे आज्ञाकारी रहेंगे तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे तथापि माता के प्रति उनके मन में विशेष लगाव तथा सम्मान का भाव रहेगा तथा उनकी आज्ञा पालन करने में सर्वदा तत्पर रहेंगे। इस प्रकार suraj और khushi का पारिवारिक जीवन सुख तथा शांति से पूर्ण रहेगा तथा प्रसन्नता पूर्वक वे अपना समय व्यतीत करेंगे।

ससुराल-सुश्री

khushi के अपने सास से सामान्यतया अच्छे संबंध रहेंगे तथा सास भी उसके विनम्र स्वभाव, मधुरवाणी तथा गृहणी के रूप में उससे पूर्ण प्रभावित तथा प्रसन्न रहेंगी। khushi भी अपनी सास को माता के समान व्यवहार एवं सम्मान प्रदान करेंगी तथा किसी भी गम्भीर समस्या का परस्पर सामंजस्य से समाधान करने में समर्थ रहेंगी।

साथ ही उसके ससुर भी उनकी सेवा तथा आदर के भाव से प्रसन्न रहेंगे तथा khushi भी अपनी ओर से उनकी सेवा सुश्रूषा करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। लेकिन देवर एवं ननदों से उन्हें यथोचित सम्मान तथा सहयोग नहीं मिलेगा तथा इनकी प्रतिद्वन्दिता का भाव परस्पर दूरी बनाए रखेगा।

इसके अतिरिक्त सास ससुर का khushi को ससुराल में पूर्ण स्नेह तथा सहयोग प्राप्त होगा तथा वे सच्चे मन से उसे अपने परिवार में स्वीकार करेंगे।

ससुराल-श्री

suraj तथा उनकी सास के संबंधों में सामान्यतया मधुरता ही रहेगी। साथ ही आपस में किसी प्रकार के मतभेद या तनाव के भाव की न्यूनता रहेगी। वे अपनी सास के प्रति श्रद्धा तथा सम्मानजनक व्यवहार रखेंगे तथा उन्हें अपनी माता के समान ही आदर प्रदान करेंगे। साथ ही सपत्नीक वह समय समय पर ससुराल के लोगों से मिलने जाया करेंगे।

लेकिन ससुर के साथ में suraj के संबंध विशेष अच्छे नहीं रहेंगे तथा आयु में पर्याप्त अंतर के कारण दोनों के मध्य काफी वैचारिक विभिन्नता तथा अन्य मतभेद रहेंगे परन्तु यदि परस्पर सामंजस्य एवं बुद्धिमता का प्रदर्शन किया जाय तो इनमें न्यूनता आ सकती है। साथ ही साले एवं सालियों से suraj के संबंध अच्छे रहेंगे तथा उनसे इच्छित सहयोग, स्नेह तथा सहानुभूति प्राप्त होगी एवं परस्पर मित्रता का भाव रहेगा। इस प्रकार ससुराल के पक्ष का दृष्टिकोण suraj के प्रति उत्साहवर्द्धक नहीं रहेगा तथा सामंजस्य से ही इसमें अनुकूलता वनी रहेगी।